



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1535]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2007/अग्रहायण 21, 1929

No. 1535]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2007/AGRAHAYANA 21, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2007

सं. 62 (आरई-2007)/2004-2009

का.आ. 2121(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004—2009 के अध्याय 87 की अनुसूची 1 (आयात) की आयात लाइसेंसिंग टिप्पणियों (9) के संबंध में अधिसूचना सं. 59 (आर ई-2006)/2004—09 दिनांक 13 अप्रैल, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. " (क) व्यक्तियों; (ख) कम्पनी और फर्म; या (ग) ओ ई एम (मूल उपकरण विनिर्माता—जिनका भारत में विनिर्माण और सेवा नेटवर्क है) द्वारा 800 सी सी या इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली नई मोटर साइकिलों के आयात पर उपर्युक्त क्रम सं. (2) (II) (ग) पर दी गई शर्तों से छूट प्राप्त होगी। तथापि, सीमाशुल्क निकासी के समय उद्गम देश से यूरोपियन संघ के किसी सदस्य राज्य से मान्यता-प्राप्त एजेन्सी का ईसी टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र/सीओपी प्रमाण पत्र उनके नोटराइज्ड अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करना होगा। यह टाइप अनुमोदन निर्धारित करेगा कि आयात किया जाने वाला वाहन पहले संशोधित किए गए सभी संगत अलग-अलग निर्देशों और यूरोपियन संघ निर्देश 2002/24/ईसी में यथा सूचीबद्ध तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसे आयातित मोटर साइकिल यूरोपियन संघ निर्देश 2003/77/ईसी में यथापरिभाषित यूरो 3 उत्सर्जन मानदण्डों के अनुसार होंगे।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/1483/एम 03/पीसी-1ए]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2007

No. 62 (RE-2007)/2004—2009

S.O. 2121(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby amends the Notification No. 59 (RE-2006)/2004—09 dated 13th April, 2007 in respect of Import Licensing Notes (9) of Chapter-87, Schedule-I (Imports) to the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 2004—09 as under :—

1. "Import of new motorcycles with engine capacity of 800 cc or more, by all categories of importers, including: (a) Individuals; (b) Companies and firm; or (c) OEMs (Original Equipment Manufacturers—who have manufacturing and service network in India) will be exempt from the conditions at Sl. No. (2) (II) (c) above. However, at the time of Customs clearance, an EC Type Approval Certificate/Certificate of COP, of an accredited agency from any member state of EU, including a notarized English translation thereof, shall be furnished. This Type Approval shall stipulate that the vehicle to be imported meets the technical requirements of all relevant separate directives, as last amended and as listed in EU Directive 2002/24/EC. Such imported motorcycles shall meet the EURO III emission norms as defined in EU Directive 2003/77/EC."

2. This issues in public interest.

[F.No. 01/93/180/1483/AM03/PC-1A]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.